

Syschem (India) Limited

Regd. Office & Works: Village Bargodam, Teh. Kalka,

Distt. Panchkula, Haryana -133302, India.

CIN: L24219HR1993PLC032195 Ph.: 7082923502, 7082923506

E-mail: info@syschem.in, URL: www.syschem.in

REF. NO. SIL/2021-22/23

Dated: 28/07/2021

The General Manager, B S E Limited, 25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001.

<u>Subject: Initimation under Regulation 30 and 47(3) Read With Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/ Madam.

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on 28th July, 2021 in the newspapers Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter Ended on 30st June, 2021 which were considered, approved and taken on record by the Board of Directors, in their meeting held on July 27, 2021.

We request you to please take the above information on your records.

Thanking You, Yours faithfully,

For Syschem (India) Limited

Bargodam Tehsil-Kaika

ochkula-13

Ranjan Jain Director

DIN: 00635274

SYSCHEM (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Village BARGODAM, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula (Haryana) website: www.syschem.in CIN: L24219HR1993PLC032195

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rupees In Lakh Yearly Quarterly **Particulars** 30-6-2021 31-3-2021 30-6-2020 31-3-2021 Un-Audited **Un-Audited** Audited Audited 1,955.54 2,347.97 1,194.32 7,467.04 Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (148.86)(262.77)(38.41)(556.59)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after extraordinary (38.41)(148.86) (262.77)(556.59)2,154.04 2,154.04 1,879.04 2,154.04 **Equity Share Capital** Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the 125.49 Balance Sheet of previous year) * Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/-Basic (Rs.): (0.69)(1.22)(0.20)(2.58)Diluted (Rs.) (0.69)(1.22)(0.20)(2.58)

NOTE:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on Company's website (www.syschem.in).

2. The above financial results were reveiwed by Audit Committee and approved by Board of Directors in there meetings held or 27-07-2021

PLACE : CHANDIGARH (SUNINDER VEER SINGH) Managing Director DIN: 07693557 DATED: 27-07-2021

> punjab national bank **ि**००७ पंजाब नैशनल बेंक MCC- Karnal SCO 23-24, 2nd Floor, Sector-12, Karnal (Haryana)-132001,

PUBLIC NOTICE
This is to inform the general public that Punjab National Bank MCC-Karna Branch intends to accept the undermentioned property standing in the name of Gurunanak Rice Mills Taraori as a security for a loan / credi facility requested by M/s Guru Nanak Rice Mills. In case anyone has go any right / title / interest/ claims over the undermentioned property, they are advised to approach the Bank within 7 days along with nee proof to substantiate their claim! If no response is received within 7 days. is presumed that the property is free of any charge / claim / encumbranc and Bank shall proceed with the mortgage. Details of Property:Description and area of the property proposed to be mortgaged, specific number(s) and address of property along with boundaries and measurement. Factory land and building measuring 25K-4Marlas detailed as under:- 1. Factory land suring 0K-3M being 1/42 share of 6K-6M in khewat no. 9min (n 11), khatoni No. 12min(new no. 11), Rect no. 7, Killa nos. 18/1(2-0), 19/1(2-0), 20/1(2-6) with all rights appurtenant thereto vide registered gifd deed no. 2242/1 dated 12.03.2021 read with mutation no. 304 dated 16.03.2021 and jamabandi for the year 2015-16. 2. Factory land measuring 3K-3M being 1/2 share of 6K-6M in khewat no. 9min (new no 11), khatoni No. 12min(new no. 11), Rect no. 7, Killa nos. 18/1(2-0), 19/1(2-0), 20/1(2-6) with all rights appurtenant thereto vide registered gift deed no. 707/1 dated 18.06.2014 read with mutation no. 240 dated 03.07.2014 and jamabandi for the year 2015-16. 3. Factory land measuring 18K-18M in khewat no. 14min (new no. 15), khatoni No. 14min new no. 15), Rect no. 7, Killa nos. 11/2(4-18), 12(8-0), 13 min west (6-0 with all rights appurtenant thereto vide registered gift deed no. 1400/dated 19.08.2014 read with mutation no. 241 dated 05.09.2014 and jamabandi for the year 2015-16. 4. Factory land measuring 3K-0M being 60/126 share 6K-6M in khewat no. 9min (new no. 11), khatoni No. 12min (new no. 11), Rect no. 7, Killa nos. 18/1(2-0), 19/1(2-0), 20/1 (2-6) with all rights appurtenant thereto vide registered gift deed no. 304/1 dated 13.05.2014 read with mutation no. 239 dated 26.05.2014 and jamabandi fo the year 2015-16. Situated at Taraori Kurak Road, Village Chopri, tehs Nilokheri, karnal-132116 in the Gurunanak Rice Mills Taraori. MCC Head, MCC Karna

BILASPUR SMART CITY LIMITED Corrigendum for E-Tender Bliaspur Dated 26/07/2021 No. 392/BSCL/2021-22 No. 392/BSCI/2021-22 Reference to the Advertisement No.376/BSCI/2021-22, Dated 22.07.2021 for NIT No. 105 & System Tender No. 79919 published in Newspaper regarding "Selection of Agency for Design Development, Implementation, Operation and Maintenance of Digital Library at Central Library for Bilaspur Smart City (Phase-III)*. The Corrigendum are hereby made due to Unavoidable Commenced Services (Phase-III)*.

Troumstances.
The Bid Due Date for Submission of Bids is 17.08.2021, IST 05.30 PM and RFP View Date Green City, Clean City, Smart City.

SBFC Finance Private Limited SBFC (erstwhile Small Business Fincredit India Private Limited Registered Office:- Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers mentioned hereunder had availed the financial assistance from Reliance Home Finance Ltd. ("RHFL"). Pursuant to the Deed of Assignment, RHFL transferred and assigned the financial assets and other rights in favour of the Securitisation Trust. Subsequently, the Securitisation Trust appointed SBFC Finance Private Limited to do all such acts including enforcement of underlying securities. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/mortgagors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder, as per guidelines of Reserve Bank of India, consequent to the Authorized Officer under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Authorized Officer Under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below, calling upon the following borrowers /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices. The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of

public flotioe about the same			
Name Of The Borrower / Address	Date of Demand Notice & Npa	Loan and Outstanding Amount	Property Address of Secured Assets
1.D GR COLLECTION, 2. GURJOT SINGH, 3. CHARAN JIT SINGH, 4. JAGDISH KAUR, D G R COLLECTION, B-4- 818 MOHALLA WAIT GANJ DR RAMPAL, JAIN STREET, PUNJAB - 141008. Trust Name: Indian Receivable Trust 19 - Series-5 dated 28-Feb-19	Notice Date: 31st May 2021 NPA date: 5thApril 2021	Loan Account No: RHLPLUD000061573 (PR00709325) Loan Amount: Rs. 1785000/- (Rupees Seventeen Lakh(s) Eighty Five Thousand Only) Outstanding Amount: Rs.2627941/- (Rupees Twenty Six Lakh(s) Twenty Seven Thousand Nine Hundred Forty One Only) as on 31st May 2021 Loan Account No: RHLPLUD000062699 (PR00709681) Loan Amount: Rs.755000/- (Rupees Seven Lakh(s) Fifty Five Thousand Only) Outstanding Amount: Rs.1096216/- (Rupees Ten Lakh(s) Ninety Six Thousand Two Hundred Sixteen Only) as on 31st May 2021	ALL THE PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTY BEARING HOUSE BEARING M.C.I. NO. B-IV-818 OLD & B-V-193 NEW ADMEASURING 60 SQ. YDS. ABADI TARSEAM COLONY SITUATED AT SHAHAR LOCALITY KNOWN AS WAITGANJ TEHSIL AND DISTRICT LUDHIANA, PUNJAB.
1. BALWINDER SINGH, 2. VIRK JEWELLERS, 3. JASWINDER SINGH, 4. N E W V I R K JEWELLERS, 260, KUTIA WALI GALI OLD MANDI, OLD GRAIN MRKT MULLANPUR, LUDHIANA, DHANA, PUNJAB-141101. Trust Name: Indian Receivable Trust 19 - Series-5 dated 28-Feb-19		Loan Account No: RHLPLUD000063916 (PR00709406) Loan Amount Rs. 1100000/- (Rupees Eleven Lakh(s) Only) Outstanding Amount: Rs.1096732/- (Rupees Ten Lakh(s) Ninety Six Thousand Seven Hundred Thirty Two Only) as on 31st May 2021	

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers, to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of his notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of the SARFAESI Act and the applicable Rules thereunder. Please note that under Section 13 (13) of the SARFAESI Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his

Dated: 28th July 2021 Place: Ludhiana (Joyal Nadar) Authorized Officer SBFC Finance Private Limited TRIDENTGROUP™ Being different is normal

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING **ANNUAL GENERAL MEETING OF TRIDENT LIMITED**

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ('meeting/ AGM') of the Members of Trident Limited ('Company') will be held on Friday, the 27th day of August, 2021 at 11:00 AM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with circulars, issued by Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020, April 8, 2020 and SEBI Circular dated January 15, 2021 and May 12, 2020, to transact the Business, as set out in the Notice of AGM.

In compliance to the above circulars, the electronic copies of the Notice of the meeting and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository (whether holding share in physical form or demat form). The above documents, along with this notice, would also be available on the website of the Company at www.tridentindia.com and on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions which is set out in the Notice of AGM. Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ("evoting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting during the AGM is provided in the Notice of AGM.

Members, who have not registered their e-mail address and/ or have not updated their bank account mandate with the Company/ Depository, please follow below

a) Registering your e-mail ID for obtaining Annual Report, Notice of AGM & for all

b) Updating your mandate for receiving the dividend directly in your bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means. Please note that only those shareholders will be entitled for the final dividend for the financial year 2020-21, if declared in the 31st AGM of the Company, whose names appeared in the Register of Members as on the Book Closure i.e Friday, May 28, 2021.

Physical holding Please send a duly signed request letter by the registered shareholder(s), to the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, M/s Alankit Assignments Limited, at rta@alankit.com OR at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi -110 055, providing Folio No and Name of the shareholder and self- attested copy of PAN & AADHAR card, for registering the e-mail address. Following additional details & documents, need to be provided for updating Bank Account details/ KYC Updation: a) A Cancelled Cheque OR a copy of Bank Passbook/statement ested by Bank (mentioning Name of first holder; Bank A/C no; IFS Code; MICR Code).

> You may send the above documents either through e-mail (scan and send over the e-mail) or by courier (physical copy by post). Please contact your Depository Participant (DP) and register/ update your e-mail address and/ or Bank account details and/ or

change of address, in your demat account, as per the process

b) Self-attested copy of Address Proof & PAN CARD of the

advised by your DP. As shareholders may be aware that, in terms of the provisions of the income-Tax Act. 1961, (the 'IT Act') as amended by the Finance Act, 2020, Dividend paid or distributed by the Company on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders and the Company shall therefore, be required to deduct tax at source (TDS) at the time of payment of dividend. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder(s) and the documents submitted by them and acceptance by the Company. The detailed e-mail in this regard has already been sent

to the shareholders on July 14, 2021, whose email IDs are registered with the Company/ Depository. Accordingly, Final Dividend for the financial year 2020-21, if declared in the 31st AGM of the Company, will be paid after deducting TDS as

Those members whose e-mail address is not registered with the Company/ Depository (whether holding share in physical form or demat form), may kindly note that, they can register their email address, in the manner provided above. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting during the AGM is provided in the Notice of AGM. By Order of the Board

For TRIDENT LIMITED Company Secretary ICSI Membership No.: FCS 9160

Place : Sanghera Date : July 27, 2021 TRIDENT LIMITED

Demat holding

CIN: 199999PB1990PLC010307

Regd. Office: Trident Group, Sanghera-148 101, India, Toll Free No. 1800-180-2999

Fax: 0161-5039900 | Website: www.tridentindia.com | Email: investor@tridentindia.com





Business Standard

Insight Out

To book your copy, call **022 4027 5432** or SMS reachbs to **57575** or email us at order@bsmail.in





चौटाला ने तीसरे मोर्चे चंडीगढ़ से लापता बच्चियां दिल्ली से मिलीं की जरूरत बताई

विपक्षी दलों से संपर्क स्थापित करेंगे इनेलो प्रमुख 25 सितंबर को होगा तीसरे मोर्चे के गठन का एलान

चंडीगढ़, 27 जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो वौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से देश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को बढ़ावा देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के

खिलाफ तीसरे मोर्चे का गठन बेहद जरूरी है।

मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश का हर वर्ग परेशान है। किसान, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, महिलाएं आज केंद्र की नीतियों से तंग हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता मौजूदा शासन का पतन कैसे किया जाए। इसके लिए उनका प्रयास यह होगा कि वो एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनाएंगे।

इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से संपर्क स्थापित करेंगे और इस भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। 25 सितंबर को देवी लाल का जन्म-दिवस है और वो उस जन्म-दिवस से पहले हर प्रदेश में जाएंगे, सभी राजनैतिक विपक्षी पार्टियों के लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। भाजपा के

उन्होंने कहा कि 2005 में जब उनकी सरकार गई थी तो दो हजार करोड़ रुपए खजाने में छोड़कर गए थे, आज प्रदेश पर भाजपा-गठबंधन सरकार ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। आज हालत यह है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हर महीने कर्ज लेना पड़ता है।

कुशासन का अंत करने के लिए तीसरे मोर्चे के

गठन की घोषणा भी 25 सितंबर को की जाएगी।

कि वह भाजपा-गठबंधन सरकार को अत्यंत

भ्रष्ट मानते हैं। इस सरकार ने समूचे प्रदेश के हर

वर्ग और हर जात के लोगों को बेरोजगार कर

दिया है। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा

चंडीगढ़, २७ जुलाई (जनसता)।

सेक्टर-41 में पड़ते गांव बुटरेला से गुमशुदा 4 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी पर ढूंढ निकाला गया है। यह चारों बच्चियां कल सोमवार अचानक अपने-अपने घरों से अचानक गायब हो गईं थीं जिसके बाद देर रात सबको दिल्ली में ढूंढ निकाला गया। पुलिस ने चारों को अपने माता-पिता को सुपुर्द कर र्दिया है, जिनमें दो बच्चियां आपस में बहनें हैं। यह चारों यहां से हरियाणा रोडवेज की बस में बैठकर दिल्ली पहुंचीं थीं।

पुलिस ने बताया कि इन चारों बच्चियों में सबसे बड़ी लड़की की उम्र 16 साल है। पुलिस के मुताबिक, दरअसल बस कंडक्टर को इन बच्चियों पर शक हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा तो इसी लड़की ने उन्हें बताया कि वह चंडीगढ़ में रहते माता-पिता से मिलकर दिल्ली वापस जा रही हैं।

आला पुलिस अधिकारी का कहना है, 'इन लड़िकयों से संक्षिप्त पूछताछ से लगता है कि उनमें

शुरुआती पुछताछ से लगता है कि उनमें दो बहनें अपने दम पर दुनिया देखने निकलीं थीं और इन्होंने ही दो अन्य बच्चियों को भी बरगलाकर अपने साथ ले लिया

दोनों बहनें अपने दम पर दनिया देखने निकलीं थीं और इन्होंने ही दो अन्य बच्चियों को भी बरगलाकर अपने साथ ले लिया। इसके बाद चारों लडिकयों ने बीते रविवार घर से निकल भागने की योजना बनाई और चारों ने कपड़ों के सथ-साथ अपने-अपने घरों से रुपए-पैसे उठा लिए थे। यह चारों पहले एक पार्क में जमा हुईं और फिर स्थानीय आईएसबीटी से दिल्ली के लिए इन्होंने हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ ली। अपने गांव से चारों लड़कियां एक ऑटोरिक्शा में आईएसबीटी पहुंचीं थीं। इनमें से एक लड़की के पास मोबाइल फोन था, जिसके आधार पर जब उसकी टावर लोकशन का पता लगाया गया तो दिल्ली की निकली। बाद में हालांकि लड़की ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।'

सूत्रों का कहना है कि उक्त ऑटो चालक के ठिकाने का सुराग लगाकर इस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा गया। दिल्ली आईएसबीटी पर हरियाणा रोडवेज की बस से उतरकर चारों लडिकयां जब वहां से बाहर निकल रहीं थीं तो चंडीगढ़ पुलिस का दल पहले ही वहां तैनात था।

सेक्टर-39 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि इनमें से एक गुमशुदा लडकी की मां के बयान के आधार पर ही इस प्रकरण में आईपीसी की धारा 363 के अधीन अपहरण/गुमशुदगी का मामला उनके ही थाने में दर्ज किया गया है।

सुत्रों का कहना है कि इनमें से दो बहनें उत्तर प्रदेशवासी परिवार की हैं जबकि दो अन्य लड़िकयों के परिवार नेपाल और स्थानीय पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में रहते हैं। इनमें से तीन लड़िकयां गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार से हैं जिनकी माताएं घरेलू कामकाज करती हैं जबकि पिता दिहाड़ीदार हैं।

नितिन चंडीगढ़ के नए गृह सचिव और आनंदिता मित्रा नई निगमायुक्त

चंडीगढ़, 27 जुलाई (जनसत्ता)।

चंडीगढ प्रशासन की तरफ से शहर में दो अहम पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है। चंडीगढ़ को नए गृह सचिव और नगर निगम के लिए नए आयुक्त मिलने वाले हैं। इन दोनों ही अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने भी

हरियाणा कैडर से 2000 बैच के आइएएस अधिकारी नितिन कुमार यादव चंडीगढ़ के नए गृह सचिव होंगे, जबकि आनंदिता मित्रा नगर निगम की नई आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की गई है।

गृह मंत्रालय की कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स ने इन दोनों के नाम को मंजूरी दे दी है। अब पंजाब और हरियाणा इनको रिलीव करेंगे उसके बाद यह चंडीगढ़ में अपना कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि प्रशासन ने तीन अधिकारियों के पैनल में से इन दोनों अधिकारियों के नाम चयन कर होम मिनिस्ट्री को मंजूरी के लिए भेजे गए थे। अब होम मिनिस्ट्री ने दोनों के नाम पर मृहर लगा दी है।

पैनल से चुनकर भेजे थे नाम

गृह सचिव के पद पर तैनाती के लिए हरियाणा ने अधिकारियों का जो पैनल भेजा था उसमें से 2000 बैच के नितिन कुमार यादव का नाम शामिल था। पैनल में दूसरा नाम रवि पंकज अग्रवाल और विनय सिंह का शामिल था। इसी तरह से नगर निगम कमिश्नर का पद पंजाब कैडर से चुनकर आता है। निगम आयुक्त पद के लिए पंजाब की ओर से भेजे पैनल में आनंदिता मित्रा, अमित कुमार और राजीव पराशर का नाम शामिल था।

मोरनी खंड में पीएचसी को सीएचसी बनाया जाएगा: विज

पंचकूला, २७ जुलाई (जनसत्ता)।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि जिला पंचकूला के मोरनी खंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-पीएचसी को स्तरोन्नयित कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- सीएचसी बनाया जाएगा। विज ने यह जानकारी आज मोरनी खंड से आए विभिन्न सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल की मांग स्वीकार करते हुए दी।

उन्होंने इस मांग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए मांग-पत्र पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही के दिशानिर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

विज ने कहा कि मोरनी खंड के चौदह भोज कोटाहा क्षेत्र की 26 पंचायतों की करीब 25 हजार की आबादी के लिए केवल एक ही पीएचसी है जिसे अब सीएचसी में तबदील कर



प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सामाजिक कार्यकर्ता चरणजीत भल्ला ने की और बताया कि मोरनी खंड में एक पीएचसी है तथा लोगों को आपातकालीन स्थिति में इलाज के लिए पंचकला अस्पताल या हिमाचल प्रदेश के सराहां आना-जाना पड़ता है। मोरनी इलाके के लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में स्थापित पीएचसी स्तरोन्नयित कर उसे सीएचसी में बदल दिया जाए।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28/07/2021

गमाडा की ई-नीलामी 4 से 16 अगस्त तक

चंडीगढ़, 27 जुलाई (जसं)।

पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों में 40 से अधिक स्थलों की ई–नीलामी आगामी 4 अगस्त सुबह 9.00 बजे से शुरू होकर 16 अगस्त, 2021 को दोपहर 1.00 बजे तक होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि ग्रेटर मोहाली एरिया डवलपमेंट-गमाडा द्वारा एसएएस नगर में व्यापारिक, औद्योगिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग स्थलों की ई-नीलामी की जा रही है। इनमें 31 स्थल हैं जिनमें 5 एससीओ/एससीएफ और 26 बूथ शामिल हैं। इसी तरह 4 आईटी औद्योगिक भूखंडों और 4 संस्थागत स्थलों की ई-नीलामी होनी है।

हरियाणा में बीते 24 घंटों में 2 संक्रमितों की मौत, नए 26 मरीज

पंचकूला, २७ जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा में कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटों में 2 मरीजों की जान गई जबकि प्रदेश में कल से लेकर अब तक नए 26 मरीजों की पुष्टि हुई है। वैसे अब तक कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 9,624 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और वर्तमान में प्रदेश में कोविड संक्रमण के 701 सक्रिय मरीज उपचाराधीन हैं।

आज पानीपत और चरखीदादरी में 1-1 मरीज की मौत हुई जबकि बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 8 नए मरीज गुरुग्राम में सामने आए जबिक सोनीपत में 6, अंबाला में 3 नए मरीजों का खुलासा मीडिया बुलेटिन में किया गया। हरियाणा

के अन्य जिलों में सामने आए संक्रमितों की संख्या इससे भी कम रही। अब तक हरियाणा में 1,12,04,738 लोगों को कोरोनारोधी टीके की खुराक लग चुकी है जिससे प्रदेश में संक्रमण से रिकवरी दर बढ़कर 98.66 फीसद पर पहुंच गया है।

पंजाब में 24 घंटों में नए 45 संक्रमितों की पुष्टि

चंडीगढ़: पंजाब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के नए 45 मरीजों की पुष्टि हुई जबकि इस दौरान किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई। यह जानकारी आज मंगलवार यहां जारी मीडिया बुलेटिन में दी गई।

वैसे अब तक पंजाब में काविड-19

संक्रमण से कुल 16,281 मरीज दम तोड़ चुके हैं। आज सामने आए उक्त नए 45 संक्रमितों में सर्वाधिक 6 लुधियाना से हैं जबिक 4-4 नए संक्रमित जलंधर-फतेहगढ़ साहिब-कपुरथला में, 3-3 नए मरीज बरनाला-बठिंडा-गुरदासपुर-होशियारपुर-मुक्तसर-संगरूर में 2-2 नए संक्रमित अमृतसर-फिरोजपुर-मोगा में और 1-1 नया मरीज मोहाली-पठानकोट-तरन तारन में सामने आया है।

अभी पंजाब में कोरोना संक्रमण के 583 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से 75 को ऑक्सीजन के सहारे और 12 को वेंटिलेटर के सहारे रखा गया है। इनके अलावा, अन्य अति गंभीर किस्म के 26 मरीजों का इलाज लेवल-3 संबंधी उपचार पद्धति के तहत किया जा रहा है।

चंडीगढ में 4 नए संक्रमित

चंडीगढ: चंडीगढ में एक दिन में 4 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है जहां अब संक्रमण का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। आज लगातार 22वें दिन यहां किसी मरीज की मौत हुई। कोरोना से शहर में अब तक 809 लोगों की मौत हो चुकी है जबिक अब तक 61,938 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना के अब सक्रिय मामले सिर्फ 37 बाकी बचे हैं। लगातार कई दिनों से स्वस्थ होने वाले मरीज अधिक रहे। आज 6 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की है। शहर में अब तक 61,092 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

ओलंपिक-2020 में प्रदेश के सबसे

अधिक 30 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई व

HIMACHAL PRADESH JAL SHAKTI VIBHAG

OSBI भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई - 400021

दिनांक 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों पर

चर्चा करने और उन्हें अनुमोदित करने हेतु बैंक के केन्द्रीय मंडल की बैठक मुंबई में

दिनांक 4 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। उक्त सूचना को बैंक की

वैबसाइट <u>bank.sbi /www.sbi.co.in</u> पर एवं स्टॉक एक्स्चेंजों की वैबसाइट

<u>www.nseindia.com</u> एवं <u>www.bseindia.com</u> पर देखा जा सकता हैं।

"ADVERTISEMENT"

दिनेश कमार खारा

advertisement) are invited for filling up of following posts in Jal Shakti Division Thuna allotted by Engineer-in-Chief Jal Shakti Vibhag Shimla vide letter No.IPH-ES-III D.W Manpower-Vol-II/ 2021-1397-99 dated-29-06-2021 and further forwarded vid Superintending Engineer Jal Shakti Circle Sundernagar letter No. 5429-74 dated 19-07-2021. The applications should reach in the office of undersigned on or before 13/08/2021, on any working day from 10.00 AM to 5.00 PM. The applications receive after due date or found incomplete will be rejected straightway without assigning any reason. The department will not be responsible for delay in receipt of applications due to

Sr. No.	Name of Post	f Eligibility and education Qualification		
1.	Para Pump Operator.	The candidate should have a minimum qualification of matriculation (10th) with ITI Certificate in the trade of Electrician/Wireman/Diesel mechanic/Pump Mechanic/ motor mechanic/ pump operator from a recognized ITI Or Matriculation (10th) with certificate in above cited trade under Skill Development Scheme of the Government.	10 Nos	
2.	Para Fitter	The candidate should have a minimum qualification of matriculation (10th) with ITI Certificate in the trade of Fitter/Plumber from a recognized ITI/ Institute	03 Nos	
3.	Multi- Purpose Workers	The Candidate should have a minimum qualification of Middle Pass or above from school duly recognized by the State Government.	50 Nos	

Age: - The minimum age for application shall be 18 and maximum shall be 45 years Documents to be attached with application forms: - Attested/Self attested copies of date of birth certificate, academic/ technical qualification certificate. Bonafide Certificate BPL Certificate and experience certificate of the related field of JSV/HPPWD/CPWD/PSUS OR outsourcing agency providing services in HP Jal Shakti

The candidate must apply on the prescribed form which is appended with this

advertisement. 2. The application form should be filled in by the candidate in his/her own hand

blue/black ink ball point pen. 3. Incomplete application forms e.g. declaration not signed, without photo and enclosure

not attached and columns not filled or applications received after due date shall be rejecte summarily without assigning any reason

5 The Candidate will be called for Skill/ Physical test separately.

Jal Shakti Division Thunad

photograph

Percentage of Marks

Signature of Candidate

Chandigarh

APPLICATION FORM FOR THE POST OF PARA FITTER, PARA PUMP OPERATOR AND MULTIPURPOSE WORKER IN JAL SHAKTI VIBHAG

 Applicant's Name (in capital letters) 	
Applicant's Name (in capital letters) Father's Name (in capital letters)	
Date of Birth Male/Female	
4. Male/Female	

4. Male/Female
5. Permanent Home address —
Correspondence address of the candidate
7. Category of the Candidate (Gen/OBC/SC/ST)

8. Post applied for PARA FITTER /PARA PUMP OPERATOR /MULTIPURPOSE

Qualification:- (i) Educational Qualification				
	Examination	Marks obtained	Percentage of Marks	
8th				
Matric				
10+2				
Other				
(ii) Technical qualification:				

Examination Marks obtained 9. Experience. If any

11 Aadhar No Note: Attested/self attested copies of all the certificate i.e. Academic/Technical qualification certificates, Himachali Bonafide, valid Character, Category, BPL, Experience certificate etc. must be attached by the candidate with the application form

DECLARATION , the above named candidate solemnly affirm and declare that all the details given by me in the application form are true and correct and nothing is incorrect therein. If any discrepancy found in my application form at any stage then I shall be liable for all the consequential actions including cancelation of any candidature

पंजाब में स्मार्ट सरकारी स्कूलों के स्टाफ रूम भी स्मार्ट रूप में आएंगे नजर

विजय इंदर सिंगला के निर्देश पर 1.09 करोड़ रु. का अनुदान जारी

चंडीगढ़, 27 जुलाई (जसं)।

पंजाब के शिक्षामंत्री विजय इंदर सिंगला के दिशा-निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कुलों के स्टाफ रूमों को अधिक प्रभावशाली प्रारूप देने हेत् 1.09 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। स्मार्ट स्कूल नीति के अधीन अब तक लगभग 70 फीसद सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कलों में तबदील किया जा चुका है। सिंगला ने यह कदम विभिन्न बैठकों के मौकों पर स्कूल प्रमुखों द्वारा स्मार्ट क्लास रूम की तर्ज पर ही स्मार्ट स्टाफ रूम बनाने हेतू प्रदत्त सुझावों के मद्देनजर उठाया है।

सभी 3,638 उच्च विद्यालयों और सीनियर सेकंडरी स्कलों में स्टाफ रूमों

को नया प्रारूप देने हेत् प्रति स्टाफ रूम 3,000 रुपए के फंड जारी किए गए हैं जबिक शेष धनराशि का बंदोबस्त इन स्कूलों द्वारा अपने स्रोतों से किया जाना है। इस धनराशि का इस्तेमाल वहां फर्नीचर, दरवाजों-खिड़िकयों के अलावा अंदर-बाहर आकर्षक रंगरोगन कराने, स्टाफ रूम में महान शख्सीयतों की तस्वीरें लगवाने, स्टाफ के लिए आवश्यक सामान रखने हेतू रैक-अलमारियां खरीदने, बिजली पर किया जाएगा।

विभाग द्वारा जिला अमृतसर के ही कुल 227 स्कूलों के लिए 6.81 लाख रुपए, बरनाला के 90 स्कूलों के लिए 2.7 लाख रुपए, बठिंडा के 202 स्कूलों के लिए 6.06 लाख रुपए, फरीदकोट के 85 स्कूलों के लिए 2.55 लाख रुपए, फतेहगढ़ साहिब के 81 स्कूलों के लिए 2.43 लाख रुपए, फाजिल्का के 147 स्कूलों के लिए 4.41 लाख रुपए, फिरोजपुर के 125 स्कूलों के लिए 3.75 लाख रुपए, गुरदासपुर के 207 स्कूलों के लिए 6.21 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

जिला होशियारपुर के 269 स्कूलों के लिए 8.07 लाख रुपए, जलंधर के 273 स्कूलों के लिए 8.19 लाख रुपए, कपुरथला के 232 स्कूलों के लिए 3.96 लाख रुपए, लुधियाना के 343 स्कूलों के लिए 10.29 लाख रुपए, मानसा के 131 स्कूलों के लिए 3.93 लाख रुपए, मोगा के 168 स्कुलों के लिए 5.04 लाख रुपए, मुक्तसर के 153 स्कूलों के लिए 4.59 लाख रुपए, पठानकोट में 81 स्कुलों के लिए 2.43 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह जिला पटियाला के 203 स्कूलों के लिए 6.09 लाख रुपए, रूपनगर के 114 स्कूलों के लिए 3.42 लाख रुपए, नवांशहर में 105 स्कूलों के लिए 3.15 लाख रुपए, संगरूर में 221 स्कूलों के लिए 6.63 लाख रुपए, मोहाली में 109 स्कूलों के लिए 3.27 लाख रुपए और तरन तारन के 172 स्कूलों के लिए 5.16 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

हरियाणा का खेल क्षेत्र में अभूतपूर्व विकासः दत्तात्रेय

चंडीगढ़, 27 जुलाई (जनसत्ता)।

सिडनी भारोत्तोलन ओलंपिक-2000 की कांस्य पदक विजेता व दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी से खेलों के बारे में विस्तृत बात की।

दत्तात्रेय ने कहा कि पिछले कई सालों से प्रदेश में खेलों का विकास हआ है और खेलों की तरफ यवाओं का रूझान बढ़ा है। खेल के क्षेत्र में प्रदेश में और अधिक संभावनाएं है। राज्य सरकार द्वारा अनेक खेल प्रोत्साहित कार्यक्रम योजनाएं शरू की गई, जिसकी बदौलत तोक्यो

शभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में अपना शत-प्रतिशत दें। निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएगें और देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतेगें। उन्होंने कहा कि तोक्यो ओलंपिक-2020 में महिला खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की। साइखोम मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। यह भारतवासी के लिए गर्व की बात है। मल्लेश्वरी ने भी कहा कि प्रदेश में परूष खिलाडियों के साथ खेलों में महिलाओं का अधिक रूझान हुआ है। इस बार भी तोक्यो ओलम्पिक-2020 में हरियाणा की 16 महिलाएं भाग ले रही हैं।

(इंडिया) लिमटेंड पंजीकृत कार्यालय : गांव बाड़गोदाम तहसील कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा)

website: www.syschem.in CIN: L24219HR1993PLC032195

30 जन 2021 को समापत तिमाही हेत अनऑडिटिड वित्तीय परिणामों का सार

6	तिमाही			वार्षिक	
विवरण	30-6-2021	31-3-2021	30-6-2020	31-3-2021	
	अन – आहिटिड	आडिटिड	अन – आहिटिड	आडिटिड	
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1,955.54	2,347.97	1,194.32	7,467.04	
कर उपरांत साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(148.86)	(262.77)	(38.41)	(556.59)	
कर उपरांत अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के बाद)	(148.86)	(262.77)	(38.41)	(556.59)	
इक्विटि शेयर कैपिटल	2,154.04	2,154.04	1,879.04	2,154.04	
रिजर्व (पूर्व वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार रिवैल्यूएशन रिजर्व को निकालकर)				125.49	
प्रति शेयर उपार्जन (असाधारण वस्तुओं से पहले)					
(प्रत्येक 10 रूपये का)					
बेसिक (रूपये)	(0.69)	(1.22)	(0.20)	(2.58)	
मिश्रित (रूपये)	(0.69)	(1.22)	(0.20)	(2.58)	

नोट (1) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य प्रकटन सबंधी आवश्कताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक सार है । तिमाही वित्तीय परिणाम का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं कम्पनी की वेबसाइट (www.syschem.in) पर भी उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षण कर ली गई है एवं बोर्ड के निदेशकों द्वारा **27-07-2021** को हुई उनकी बैठक कृते एवं इनकी तरफ से हस्ता /-स्थान : चण्डीगढ (सनिन्द्र वीर सिंह)

दिनांक: 27-07-2021

प्रबंधक निदेशक DIN : 07693557

में अन्य नहरी वितरक नालियों में पानी की किल्लत आ रही है और अब इन सूरत-ए-हाल में धरनारत किसानों ने वहां अपने बगीचों और खेत-खलिहानों में समरूप जल वितरण की मांग करते हुए अबोहर स्थित फाजिल्का-हनुमानगढ़ पुल पर यातायात बाधित कर रखा है।

मालवा में किसान और नहरी

विभाग आमने-सामने हैं जहां

किसान सिंचाई के लिए मुख्यतया नहरी पानी पर निर्भर रहते हैं वरना इलाके का भजल जहरीला है। इसी मुद्दे पर किसानों ने मुक्तसर के पांच नहरी हैडवर्क्स पर धरना दे दिया और वही अब वहां अपने स्तर किसानों पर जल वितरण का कामकाज नियंत्रित कर रहे हैं। इससे फाजिल्का

की अबोहर शाखा में कार्यकारी अभियंता मुख्त्यार सिंह का कहना है, 'मुक्तसर में किसान संघों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक आज मंगलवार को हुई जहां को हमारे

हैडवर्क्स पर लगाया धरना उठा लेने की गृहार लगाई गई। अबोहर, बल्लुआणा और आसपास के इलाकों में करीब 3600 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड चाहिए होता है लेकिन हमें 2600 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है जिससे अंतिम छोर के किसानों को पानी की भारी किल्लत आ रही है। अबोहर में किसान बीती 21 जुलाई

मुक्तसर में नहरी विभाग के पांच हैडवर्क्स पर

किसानों का कब्जा, फाजिल्का में पानी की कमी

से ही धरना लगाए बैठे हैं। ऐसे में हमने मुक्तसर में किसानों को उनका धरना खत्म करने की गुहार लगाई है ताकि हमें समरूप जल वितरण करने में सुविधा हो। हमने पलिस को भी इन किसानों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज करने को